

## कृषि विज्ञान केन्द्र ने मनाया “वन महोत्सव”

आज दिनांक 10.7.2018 को कृषि विज्ञान केन्द्र -भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर द्वारा विकासखण्ड नवाबगंज के ग्राम ग्रेम में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र डा० बी.पी. सिंह



ने वन महोत्सव के महत्व को बताया तथा गाँवों में वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने का आह्वान किया, क्योंकि वृक्ष वायु प्रदूषण को कम करते हैं तथा वायु को शुद्ध करते हैं, साथ ही खेत में कार्य कर रहे कृषकों एवं पशुओं को छाया प्रदान करते हैं। आपने बताया कि बहुत से वृक्षों से पशुओं को चारा भी उपलब्ध होता है। श्री रंजीत सिंह, विषय विशेषज्ञ ने फलदार बाग लगाने की विधि व घरों के आसपास फलों के पौधे किस प्रकार लगाये, इसकी जानकारी दी। श्री राकेश पाण्डेय, विषय विशेषज्ञ ने इस अवसर पर धान की फसल की वैज्ञानिक जानकारी के साथ एजोला उत्पादन एवं उसके महत्व एवं जिज्बा घास के उत्पादन के बारे में बताया। डा० रंजना गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया, साथ ही महिलाओं को गृहवाटिका बनाने व स्वस्थ रहने के तरीके बताये। इस अवसर पर गाँव में संचालित स्वयंसेवी संस्था की प्रसार कार्यकर्ती श्रीमती जसोदा व श्रीमती रौशनी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर कृषकों के साथ मिलकर गाँव में वृक्षारोपण भी किया गया, कृषकों एवं कृषक महिलाओं को आम, कटहल, कुंदू के 50 पौधों के वितरण के साथ जिज्वाघास की 250

कटिंग व 1 किलो0 एजोला भी कृषकों को प्रदर्शन हेतु प्रदान किये गये। ग्रामीण महिलाओं को गृह वाटिका में बोन हेतु वर्ष भर सब्जी उत्पादन हेतु सेम के बीज भी वितरित किये गये। इस वन महोत्सव कार्यक्रम में कुल 100 लोगों (25 महिलाओं व 75 पुरुष) द्वारा सहभागिता दर्ज की गयी।

